



SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT & TECHNOLOGY

NH-91, Khurja G.T. Road, Bulandshahar (U.P), India - 203002

Call: +91 80060 12345 , +91 97580 97580

website: www.sbmt.in | Email- sbmtedu@gmail.com

दिनांक: 16-06-2022

नोटिस

योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। योग मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। योग करने से व्यक्ति के तनाव दूर हो जाते हैं। योग शरीर को बीमारियों से मुक्त रखता है। यहां तक कि योग कई प्रकार के बीमारियों का इलाज भी करता है।

महाविद्यालय में कार्यरत समस्त स्टाफ व अध्ययनरत समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि **दिनांक 21-06-2022 दिन मंगलवार** प्रातः 5:30 बजे से महाविद्यालय में **“अन्तर्राष्ट्रीय योग-दिवस”** पर कार्यक्रम का आयोजन होना सुनिश्चित है। कार्यक्रम में समस्त स्टाफ व छात्र/छात्राओं का भाग लेना अनिवार्य है। महाविद्यालय आने हेतु बस प्रातः 5:00 बजे काला आम बुलन्दशहर से चलेगी।

(डा० सौरभ कुमार शर्मा)
प्राचार्य
Principal
School of Business Management & Technology
Bulandshahr